



RUNGTA IRRIGATION LIMITED

REGD. & HEAD OFFICE:

101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi-110008

Ph.: 011-40453330, 331, 332, Fax: 91-11-25716231

CIN: L74899DL1986PLC023934 E-mail: info@rungtairrigation.in Website: www.rungtairrigation.in

To,

November 04, 2020

The General Manager,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Dear Sir,

Sub: Intimation of publication of notice for Board Meeting to be held on November 10, 2020

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of notice published in the following newspapers:-

- 1. In English Daily- Pioneer
- 2. In Hindi Daily- Pioneer

You are requested to kindly take the aforesaid information on your record.

Thanking you, Yours faithfully,

FOR RUNGTA IRRIGATION LIMITED

Mr. Prateek Sharma

(Compliance Officer & Company Secretary)

NEW DELHI

M.no.-49283





India's exports dip 5.4% in Oct, trade deficit narrows to \$8.78 bn

positive growth in September, India's exports declined 5.4 per cent to USD 24.82 billion in October on account of dip in shipments of petroleum products, gems and jewellery, leather, and engineering goods.

Trade deficit in October narrowed to USD 8.78 billion as against USD 11.76 billion, as imports also fell 11.56 per cent to USD 33.6 billion during the month under review.

"India's merchandise exports in October 2020 were UŜD 24.82 billion, as compared to USD 26.23 billion in October 2019, showing a fall of 5.4 per cent," the Commerce and Industry Ministry said in

Major export commodities which recorded negative

ed petroleum products (53.30 per cent), cashew (21.57 per cent), gems and jewellery (21.27 per cent), leather (16.69 per cent), man-made yarn/fab-rics/made-ups (12.82 per cent), electronic goods (9.40 per cent), coffee (9.25 per cent), marine products (8.09 per cent) and engineering goods (3.84 per cent).

Sectors which showed positive growth included rice, oil meals, iron ore, oil seeds, carpet, pharmaceuticals, spices, cotton and chemicals.

During April-October 2020, exports declined 19.05 per cent to USD 150.07 billion, while imports fell 36.28 per cent over the same period last to USD 182.29

Oil imports dipped 38.52

October. During April-October, it declined 49.5 per cent to USD 37.84 billion.

After contracting for six straight months, India's exports rose 5.99 per cent to 27.58 billion in USD September.

Federation of Indian

Export Organisations (FIEO) President Sharad Kumar Saraf said the nominal decline in exports during the month was mainly because of huge container shortage and hike in sea freight, which upset exports, particularly for those who have negotiated on CIF (Cost, Insurance, Freight) or C&F and Freight) basis.Besides, farmers' agitation in some of the hinterland states also affected exports during

Eco Affairs Secy: Govt to soon announce another round of stimulus

New Delhi: The Finance Ministry will soon come up with a fresh round of economic stimulus, Economic Affairs Secretary Tarun Bajaj said on Tuesday.

Addressing the media here, he said that the Department of Finance has received suggestions and discussions are on in the ministry regarding the next set of measures amid the pandemic. It will be announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman, he said.

Bajaj's statement comes just over a week after he said that the Centre is open for further measures to boost the economy. Last month, the Finance Minister had also said that the Centre has not closed the option for another stimulus package.

In May, the government came up with the much talkedabout Rs 20 lakh crore 'Aatmanirbhar Bharat' economic package. Both the rounds of stimulus so far have received more flak than appreciation from the industry and experts, as many are of the opinion that they are inadequate, more so in terms of boosting demand.

A recent Moody's report said that that the second round of fiscal stimulus amounts to just 0.2 per cent of the country's real GDP forecast for the financial year 2021 and in total, the two rounds of stimulus bring the government's direct spending on coronavirus-related fiscal support to just around 1.2 per cent of GDP.

No additional compliance burden on pvt cos for LTC scheme: Fin Sec

New Delhi: Private sector companies offering the benefit of the new LTC cash voucher scheme to its employees will not have to undertake any additional compliance burden, Finance Secretary Bhushan Pandey said.

Companies as per statute are required to maintain records of travel and other documents submitted by employees for availing

Under the new scheme, employees will have to submit to their companies bills indicating expenditure of an amount 3-times of the LTC. The companies as in past will maintain the records and only submit them to Income Tax Department if sought for. PTI

IMF chief economist urges more fiscal stimulus to boost economic recovery

Washington: Gita Gopinath, tion and large-scale invest chief economist of the ment in medical facilities, dig International Monetary Fund (IMF), has urged policymakers to provide more fiscal stimulus to boost the recovery from the Covid-19 pandemic as the global economy is in a liquid-

"For the first time, in 60 per cent of the global economy including 97 per cent of advanced economies -- central banks have pushed policy interest rates below 1 percent. In one-fifth of the world, they are negative," Gopinath wrote in an op-ed article in the Financial Times, adding central banks have little room to further cut interest rates if another shock strikes, Xinhua news agency reported.

"It has led to the inescapable conclusion that the world is in a global liquidity trap, where monetary policy has limited effect. We must agree on appropriate policies to climb out," Gopinath said on Monday, noting fiscal policy must play a leading role in the recovery.

Gopinath suggested that fiscal authorities can actively support demand through cash

ment in medical facilities, digital infrastructure and environment protection.

"These expenditures create jobs, stimulate private investment and lay the foundation for a stronger and greener recov

ery," she said. Gopinath noted that "the importance of fiscal stimulus has probably never been greater" because the spending multiplier, the pay-off in eco nomic growth from an increase in public investment, is much larger in a prolonged liquidity

'Monetary policy has and will remain central to this effort, but with the world in a global liquidity trap it is time for a global synchronised fiscal push to lift up prospects for all, the IMF chief economist.

In its World Economic Outlook report released last month, the IMF revised up the 2020 forecast for global economy to a contraction of 4.4 per cent. Despite the upward revision, the IMF said the ascent out of this crisis is likely to be "long, uneven and highly uncertain". IANS

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052 Ph: 011-42952500, Fax: 011-42952555 E-Mail: info@sfclindia.com Website: www.sfclindia.com CIN: L65921DL1989PLC035261

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations 2015 (the Listing Regulations) that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday, the 11th November 2020 at 4:00 p.m. at Reod Office of the company, inter-alia, to conside & approve the un-audited quarterly financial results for the second quarter ended 30th September, 2020 and any other matter with the permission of chair

It is further notified in pursuance of Regulation 47(2) of the Listing Regulation: that the further details may be accessed or Company's website (www.sfclindia.com) Metropolitan Stock Exchange (www.msei.in) Pursuant to SEBI (Prohibition of Inside Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in shares of the Company has been closed from 1st October 2020 till 48 hours after the said financia results are declared to the Stoci

Place : Delhi (Deepti)
Date : 03.11.2020 Company Se

RUNGTA IRRIGATION LIMITED gistered Office: 101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi-110008 CIN: L74899DL1986PLC023934, TEL: 011-40453332 Website: www.rungtairrigation.in

NOTICE Pursuant to the provision of Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company is schedule to be held on Tuesday, November 10, 2020 at 1:30 PM at the registered office of the company at 101, Pragati Towers 26, Rajindra Place, New Delhi-110008, inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

Further, in accordance with the Company's Code of conduct for prevention of Insider Trading as per Regulation 9 of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015, the Trading Window for dealing in Securities of the company which had been closed earlier on October 1, 2020 shall remain closed till the expiry of 48 hours after the date of declaration of the aforesaid results. The said notice is also available at company's website at www.rungtairrigation.in.

The Board may also consider and approve other necessary resolutions as per agenda items.

For Rungta Irrigation Limite Prateek Sharma

(Company Secretary & Compliance Officer)

Sensex extends gains on banking, finance boost; global markets firm on US election day

Mumbai: The Sensex rallied 504 points while the Nifty reclaimed the 11,800-level on Tuesday, propped up by banking and finance counters, as global markets marched higher on US election day.

Encouraging Q2 results and oreign capital inflows added to the buying momentum in the domestic markets, traders

Rising for the second traight session, the 30-share BSE Sensex ended 503.55 points or 1.27 per cent higher at 40,261.13. Similarly, the proader NSE Nifty jumped 144.35 points or 1.24 per cent

ICICI Bank was the top

gainer in the Sensex pack, soaring 6.51 per cent, followed by SBI, HDFC, PowerGrid, Sun Pharma, IndusInd Bank, Titan, Bajaj Auto, HDFC Bank and Axis Bank.

On the other hand, NTPC, Reliance Industries, Nestle India, HCL Tech, Infosys and HUL were among the laggards, shedding up to 3.75 per cent.Global bourses followed Wall Street higher as investors wagered on fresh US stimulus immediately after the elections.Bourses in Shanghai, Hong Kong, Seoul, and Tokyo ended with significant gains.

Stock exchanges in Europe were also trading on a positive note in early deals.

be reasonable, will continue to

request states to join; FinSecy

New Delhi: The quantum of borrowing to meet states' GST rev-

enue shortfall has to be "reasonable" considering its economic

impact and the Centre will continue to request the opposition-

ruled states to opt for the proposed borrowing plan, Finance

authorisation from states that repayment would be made only

from the GST compensation cess which is being collected and

repayment schedule will be set in such a manner that the collections in cess pool post June 2022 would be enough to repay

borrowing plan proposed by the Centre to meet the Rs 1.83 lakh

crore shortfall in Goods and Services Tax (GST) collection of

He said while extending the loan, the Centre would take

So far, 21 states and 3 Union Territories have opted for the

Govt owned

clean chit to

Reliance CF

IANS NEW DELHI

Agriculture

NABARD gives

The Government owned National Bank for

Development (NABARD), the

second largest lender to Reliance

Commercial Finance Limited

(RCF) with over Rs 1.100 crore

of secured loan exposure, has

given clean chit to RCF and has

consortium of lenders and is

signatory to an Inter Creditor

Agreement (ICA) executed

between the lenders of RCF

under the June 7, 2019 circu-

lar of RBI on resolution of

NABARD is a part of the

removed its Red Flag.

and Rural

Secretary Ajay Bhushan Pandey has said.

the interest arising out of borrowing.

Institutional investment |

in real estate drops

73pc at USD 1.18 bn

in January-September

New Delhi:Institutional flow of

funds in real estate fell 73 per

cent in January-September at

USD 1.18 billion (around Rs

8,700 crore) as investors

However, the institutional

sharply in the current quarter

and the total inflow could reach

to USD 4.8 billion during the

entire this year. Institutional

flow of funds include invest-

ments by family offices, foreign

corporate groups, foreign banks

proprietary books, Pension

funds, private equity, real estate

Finmin says no increase in service charges by any public sector bank

New Delhi: The Finance Ministry on Tuesday said that there has been no increase in service charges by any public sector bank even as Bank of Baroda decided to withdraw changes made with regard to the number of free cash deposit transactions in a bank accoun-

per month. Bank of Baroda had made certain changes with effect from November 1, 2020, with regard to the number of free cash deposits and withdrawals per month, a Finance Ministry statement said.

The number of free cash deposits and withdrawals, have been reduced.

Rupee ends flat at 74.41/\$ on spike in crude oil prices, dollar buying

Mumbai: The rupee pared its early gains to close almost flat at 74.41 on Tuesday due to dollar buying by banks and resurging crude oil prices.The rupee opened sharply higher at 74.34 amid heavy buying in local stock markets and raced to hit the day's high of 74.25.

Gold rises by ₹ 55, silver gains ₹170 New Delhi: Gold prices rose Rs

55 to Rs 50,735 per 10 gram in the national capital on Tuesday, tracking strong global trends, according to HDFC according Securities

In the previous trade, the precious metal had closed at Rs 50,680 per 10 gram.

Sebi streamlines framework for processing of draft schemes of arrangement filed with exchanges

New Delhi: Markets regulator Sebi on Tuesday streamlined framework for processing of draft schemes pertaining to mergers and demergers filed by listed companies with the stock

The changes are aimed at ensuring that the recognised stock exchanges refer draft schemes to Sebi only upon being fully convinced that the

with the regulatory norms, it said in a circular.

The new framework will be applicable for all the schemes filed with the stock exchanges after November 17,

According to Sebi, stock exchanges will have to provide the 'no-objection' letter to Sebi on the draft scheme in co-ordination

virtual global investor roundtable

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi will on Thursday chair a virtual global investor roundtable that will provide an opportunity to leading global investors and Indian business leaders to engage and deliberate with senior policy makers on how to further accelerate the growth of international investments in the coun-

Nirmala Sitharaman, Union Minister of State for Finance Anurag Thakur, RBI Governor Shaktikanta Das and other dignitaries will also be present on the occasion.

Administrative Civil Judge-cum-ARC (Central), Delhi

Room No. 323, 3rd Floor, Tis Hazari Courts, Delhi

Petition No. SC/69/2020

Anil Bhatia & Ors. V/s The State & Ors.

Anil Bhatia

S/o Late Sh. GR Bhatia

R/o House No : M-92, New Rajinder Nagar

FOR SUCCESSION CERTIFICATE UNDER INDIAN SUCCESSION ACT 1925

Whereas in the above noted

petition the applicant/ petitioner has applied for Succession

Certificate to the Hon'ble Court

Under Section 372 of the Indian

Succession Act, 1925, in respect of the debt and

securities amount of Rs. xxx

as per record to be standing in

Bhatia the deceased

the name of Late Ms. Raj Bala

Whereas the 07-11-2020 at

DDA Site-1, Delhi-110060

All Concerned

Leena Al raises \$8 mn in funding led by Greycroft

PNS NEW DELHI

🛛 eena AI, an artificial intelli-Lgence (AI)-powered employee experience platform, on Tuesday announced an \$8 million Series A financing led by Greycroft to expand its goto-market programs and accelerate product development. The round also included a

personal investment from Adam Miller (Founder of Cornerstone OnDemand), Alan Patricof (Chairman of Grevcroft) and Jim Moffatt (ex-Chairman/CEO of Delloite Consulting). In conjunction with the funding, Mark Terbeek, partner at Greycroft,

will be joining Leena AI's board. The funding will allow Leena AI to continue its momentum by helping the world's top enterprises to modernize their legacy internal helpdesk systems to better their employee experience. Traditional internal helpdesk systems take longer for employees to get answers from HR teams. Leena AI leverages artificial intelligence to automatically answer repetitive employee queries in real-time and enables HR to better support employees.

uncertain". transfers to support consump-INBRIEF



N RAILWAYS GM INSPECTS ANAND VIHAR TERMINAL

The Diwali - Chhat festivals are major travel times. Northern Railway makes elaborate arrangements for providing convenient and comfortable rail travel to its patrons. In this regard, Sh. Ashutosh Gangal, General Manager, Northern Railway inspected Anand Vihar Terminal Railway station, today, to oversee the preparations ahead of the festival season. He was accompanied by Sh. S.C. Jain, Divisional Railway Manager, Delhi, senior officers of Northern Railway and Indian Railway Station Development Corporation. Gangal, conducted a detailed inspection of the station premises, circulating area, the subway and the platforms. He also took account of the passenger amenities at the station. He was briefed by the officials regarding the Diwali-Chhat preparations, in terms of organized passenger movement, orderly train boarding/deboarding, additional food stalls, water, toilets and medical facilities, public announcement and display systems and security arrangements.

K RIZVI TAKES CHARGE AS HUDCO CMD Kamran Rizvi, IAS, Additional Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, assumed the office of Chairman & Managing Director(additional charge)



FESTIVE SEASON HINTS ECONOMIC BOOST: PNB MD



The nation's leading public sector bank, Punjab National Bank, (PNB) hosted a virtual press conference today to discuss its Q2 FY 2020-21 results. Sh CH. S. S. Mallikarjuna Rao, MD and CEO of the Bank, highlighted key point of the September-quarter result as well as the recent economic developments in the wake of COVID-19 pandemic. Shri. Rao said that the festive season will signal the economic revival and maintained the overall credit growth to grow at 4-6 per cent for the current fiscal though a more realistic picture will be known by December 2020. However, both home and auto loans have gained momentum and are heading to the pre-Covid-19 levels. Corporate loans also show resurgence, especially those from roads, steel, cement, healthcare and parts of infrastructure industries. He said the demand remains healthy and may improve further in the coming days.

India has time till Dec-end to appeal against Voda arbitration award

New Delhi: The Indian government has time till the last week of December to appeal against the verdict of an arbi tration panel that scrapped levy of Rs 22,100 crore tax on the UK-based telecom firm Vodafone Group Plc using a retrospective law.

Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey, refusing to be drawn into discussion on former Finance Minister Arun Jaitley's promise to honour awards in retrospective tax cases, said the government is examining all aspects to arrive at a decision on whether to appeal against the Voda award.

"We are still examining various aspects and a decision would be taken in due course,' Pandey told PTI.

Asked if there is a time limit on the decision to file an appeal, Pandey said, "All arbitration orders if at all have to be appealed, have a time limit

decide, so will decide."

remained cautious due to the COVID-19 pandemic, according of 90 days. So, we have time to to property consultant JLL India. investments are likely to rise

AXIS BANK Retail Asset Centre, Delhi: Lower Ground Floor and Upper Ground Floor, Himalava House K G. Mars. Carlo 146001 AXIS BANK
Floor, Himalaya House, K.G. Marg, Delhi-110001.
Also at: Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14,
Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.)-201301

Retail Asset Centre, Ghaziabad: BF-1A,2,3, 1st Floor, Aditya City Centre, Niti Khand-1 Indirapuram, Ghaziabad-201012.Retail Asset Centre Faridabad: Axis Bank Ltd. SCO-8, Huda Shopping Christian Scale Company (Statis Asset Centre Parlades). Ass Bank Ltd. ASC Gurgaon, SG-107, DLF Galleria Complex, Near Post Office, DLF City Phase 4, Gurgaon 122009 Corporate Office: 'Axis House', Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025 **Registered Office:** 'Trishul', 3rd floor, opposii Samartheswar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisatio Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security InterestAct, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interes ment) rules 2002, issued demand notice upon the Borrower(s)/ Co-Borr Guarantor(s)/ Mortgagor(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice with 60 days from the date of receipt of the said notice

The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) having failed to repay the amoun notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereir below in exercise of powers conferred on him/ here under Section 13(4) of the said Act read w

Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) in particular and the public general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property w be subject to the charge of Axis Bank Ltd.

The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) attention is invited to provisions sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets				
Sr. No	Name of Borrower/ Co-borrower	Description of Property	1. Date of Demand	
	1.Mr. Ankur Bhati	All that Flat No. 103, Situated	Notice	

GREENS GREATER NOIDA GAUTAM BUDH NAGAR UTTAR PRADESH-201306 ALSO AT Mr. Ankur Bhati S/O Mr Dharam Singh 5TH FLOOR KAISONS ALPHA SQUARE ALPHA COMMERCIAL BELT GREATER NOIDA UTTAR PRADESH-201308

Date : 04-11-2020, Place : Delhi

S/O Mr. Dharam Singh AV 4/302 ASHOK VATIKA 4 JAYPEE On Ground Floor having Super Builtup area 1350 sqft or 125.46 Samts Situated in on land bearing Khasra no. 152 in Mauza mokhampur Khurd,Pargana Parwadoon,District Dehradur Boundaries:-East- Set Back West -Lift & Lobby . Mrs. RUCHI BHATI W/O Mr. Ankur Bhati AV 4/302 ASHOK North- Flat no. 104 VATIKA 4 JAYPEE GREENS GREATER outh-Set Back NOIDA GAUTAM BUDH NAGAR UTTAR

The above-mentioned Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) are heret

given a 30 days' Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the

expiry of 30 days' from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rule 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Notice (Rs.) . 17-Sep-18 29-Oct-20 Rs 3,280,614 incidental expenses and

Authorized Officer Axis Bank Ltd.

Sd/-

Tender Document

No.: 454-ACS/C/Vehicle/TKJ Dated: 03.11.2020

Possession

Detailed Tender Notice & website i.e. www.ireps.gov.in from 05.11.2020 to 26.11.2020 and bidders will be able to offer the technical and financial bid from 11.11.2020. All other terms and conditions in respect of abo

2415/2020

exchanges. GST borrowing quantum has to

listed entity is in compliance PM to chair

The Virtual Global Investor Roundtable (VGIR) is being organised by the Ministry of Finance and the National Investment and Infrastructure Fund, the Prime Minister's Office (PMO) said in a statement.

It is an exclusive dialogue between leading global institu-tional investors, Indian business leaders and the highest decision makers from the government of India and financial market regulators, the statement said.

Union Finance Minister

NORTHERN RAILWAY

TENDER NOTICE The Dv. Chief Engineer/Construction/Northern Railway, Tilak Bridge, New Delhi for

and on behalf of the President of India invites open e-tender under Single-packet system for the following work "Hiring of 03 (three) Nos. Non-AC Vehicle such

PTI | stressed assets.

as "Jeep, Gypsy, Tata Sumo type of vehicle" or the monthly basis for a period of 02 (Two) years for the officers working in the unit of Dy. Chie Engineer/construction, Tilak Bridge, New Delhi. 2 Completion period of work 24 (twenty four) months Approx. Cost of work Rs. 34,71,680.16 only Earnest Money to be Rs. 69,400.00 only deposited Tender may be uploaded up to 11.30 hrs. 26.11.2020 on IREPS website submission of E-tender www.ireps.gov.in. The bidders can participate in the e-tender, the Bids of which will be opened a and opening of tender 11.30 hrs. on 26.11.2020. The detailed e-tender notice available on Northe Railway website i.e. www.nr.indianrailways.gov.in abov tenders document will be available on IREPS

Serving Customers with a Smile

10' o clock in the forenoon has been fixed for hearing or the application notice is hereby given to this concerned. Given under my hand and the seal of the court on this 02-11-

(Seal) (SHEFALI BARNALA TANDON Administrative Civil Judge-cum-ARC (Central), Delhi

IN THE COURT OF Ms. SHEFALI BARNALA TANDON Public Works Department Government Resolution Number CAT-2017/C.R.8/Building-2, Dated 12th April 2017. FORM-1

Government of Maharashtra **Public Works Department** North Mumbai (P.W.) Division, Andheri Telephone No. 022-26231964 E-Tender Notice No.10 (2020-21.)

E-mail address:- northmumbai.ee@mahapwd.com Telephone/Fax Number:- 26231964/26205788 E-Tender for the following work in B-1 Form is invited via online e-tendering system from Valid Registered Contractor by the Executive Engineer, North Mumbai (P.W.) Division, Andheri (w), and Mumbai-58 on behalf of Government of Maharashtra. Tender Documents are downloaded from Government of Maharashtra porta https://mahatenders.gov.in Right to select or reject is reserved by Executive Engineer, North Mumbai (P.W.) Division, Andheri (w), Mumbai-58. Tender with condition is never accepted.

No.	
1.	Annual Maintenance to 32 PSI, 8PI & 10 PI at Carter road Bandra (W). & 54 Police Constable Qrts Bldg. No.A., 21 Police Qrts Bldg. "B", 48 Police Qrts Bldg. "C, D, & E" 40 Police Qrts Bldg. "F", 2 Police officer, Additional C.P.& 6 Cleaner Qrts Waterfield Road Bandra (W). Addl.Commissioner of Police Qrts at Waterfeild road at Bandra west (Krutika - 3) & 6 Block Police Qrts, 18 PSI, Qrts Santacruz (W). & 16 PSI Qrts Saraswati Road Mumbai. Repairs to fixtures & fastenings of doors & windows, sanitary and water supply fittings, Color washing, distempering and patch painting of walls & Doors & windows, Repairs to Plaster, Pointing, Miscellaneous items of similar nature.

The Executive Engineer, North Mumbai (P.W.) pDivision, Andheri (W) Reserves right to Accept or Reject any offer. Conditional offers will not be accepted All registered contractor should note

E- Tender Submission Date 04/11/2020 to 18/11/2020 E- Tender Opening Date 19/11/2020

Executive Engineer North Mumbai (P.W.) Division Andheri (West Mumbai)

48,47,520/-

Sd/

DGIPR/2020-2021/1103

रवदेश लोटे भारतीय बैडमिंटन खिलाडी

नर्ड दिल्ली। कोविड-१९ महामारी के डर के कारण जर्मनी में सारलॉरलक्स ओपन से हटने और फिर पृथकवास पर रहने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना वायरस के दूसरे परीक्षण में नेगेटिव आने के बाद मंगलवार को स्वदेश लौट गए। इन खिलाडियों में लक्ष्य सेन भी शामिल है जो अपने खिताब का बचाव करने के लिए जर्मनी गए थे लेकिन उनके पिता और कोच डी के सेन के वायरस के लिए पॉजीटिव पाए जाने के बाद उन्हें सारबूकेन में सारलॉरलक्स ओपन से हटना पड़ा था।

तेंदुलकर ने हेलमेट अनिवार्य करने को कहा

नई दिल्ली। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चितित भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेदुलकर ने आईसीसी से अपील की कि वे पेशेवर स्तर पर खेलने के दौरान बल्लेबाजो के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करे।तेंद्रलकर ने सनराइजर्स हैदराबाद के आलराउंडर विजय शंकर क वीडियो साझा किया जिनके सिर में उस समय गेंद लगी जब किंग्स इलेवन पंजाब के क्षेत्ररक्षक निक्षेलस पूरन ने बल्लेबाजी छोर पर गेंद फेंककर बल्लेबाज को रन आउट करने का प्रयास किया।

लगातार मैच गंवाना सबसे मुश्किल दौर थाः पोंटिंग

अबु धाबी। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोटिग ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के अंतिम लीग मैच में जीत से पहले लगातार चार मैच गंवाना सबसे मुश्क्लि दौर था लेकिन इस दौरान खिलाडियों को मनोबल बनाए रखने क फायदा मिला। दिल्ली की टीम ने टुर्नामेट मे सबसे अच्छी शुरुआत की और अपने पहले नौ मैचो में से सात में जीत दर्ज की। श्रेयस अय्यर और उनकी टीम को हालांकि इसके बाद लगातार चार हार का सामना करना पड़ा और टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई।

वावरिका और गारकेट पेरिस मारटर्स के दूसरे दौर में

पेरिस। तीन बार के ग्रैडस्लैम चैपियन स्टेन वावरिका ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेट मे मंगलवार को यहां डेनियल इवांस को 6-3, ७-६ से हराकर दूसरे दौर मे जगह बनाई। दुनिया के तीसरे नंबर के पूर्व खिलाड़ी और 12वे वरीय ने ब्रिटेन के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 35 विनर लगाए और अपने पांचो मैच मे जीत दर्ज की। वावरिका अगले दौर मे जाइल्स सिमोन और टॉमी पॉल के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिडेंगे।

दअफ्रीका दौरे के लिए स्टोक्स, आर्चर, कुरेन इंग्लैंड की वनडे टीम में नहीं

लंदन। बेन स्टोक्स , जोफ्रा आर्चर और सैम क्रेन को अगले महीने के दक्षिण अफ्रीक दौरे केलिए इंग्लैंड की एक दिवसीय क्रिकेट टीम में नहीं चना गया है। वे २७ नवंबर से एक दिसंबर तक तीन मैचों की टी२० श्रृंखला खेलेगे। चार से नौ दिसंबर तक होने वाली वनडे श्रृंखला से उन्हें आराम दिया गया है। स्टोक्स हाल ही में इंडियन पीमियर लीग के जरिए मैदान पर लौटे है।

🛡 व्यापार घाटा

८.७८ अरब डॉलर

देश का निर्यात अक्टूबर में 5.4

प्रतिशत गिरकर 24.82 अरब डॉलर पर

आ गया। मंगलवार को जारी सरकारी


आंकड़ों के मुताबिक इसकी वजह

इंजीनियरिंग सामान और चमडे की

भाषा। नई दिल्ली

इंडियंस ने सनराइजर्स को दिया १५० रन का लक्ष्य

संदीप शर्मा की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने लिए करो या मरो के मुकाबले में मुंबई इंडियंस को आठ विकेट पर 149 रन पर रोक दिया। कीरोन पोलार्ड ने अगर आखिर में 25 गेंद में 41 रन नहीं बनाए होते तो मंबई की स्थिति खराब होती। पोलार्ड ने 19वें ओवर में टी नटराजन को लगातार तीन छक्के लगाकर मुंबई को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में दो चौके और चार छक्के जड़े। मुंबई की टीम में कप्तान रोहित शर्मा ने वापसी की जो चोट के कारण पिछले कई मैचों से बाहर थे हालांकि वह बल्लेबाजी में कोई कमाल नहीं कर सके और चार रन बनाकर संदीप का पहला शिकार बने। रोहित को इसी चोट की वजह से आस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में भी नहीं चुना गया। सनराइजर्स को प्लेआफ में पहुंचने के लिए यह मैच हर हालत में जीतना है अन्यथा कोलकाता नाइट राइडर्स को अंतिम चार में जगह मिल जाएगी। कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का सटीक फैसला लिया। उनके गेंदबाजों ने इतना अनुशासित प्रदर्शन किया कि पूरी पारी में सिर्फ एक रन ही फालतु दिया। संदीप ने चार ओवर



जबिक शाहबाज नदीम ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 19 रन देकर दो विकेट संदीप ने तीसरे ही ओवर में रोहित

लपकवाकर मुंबई को करारा झटका दिया। क्रिंटोन डिकॉक ने पांचवें ओवर में संदीप को दो छक्के और एक चौका जडा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए।उन्होंने 13 गेंद में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 25 रन बनाए।

मंबर्ड इंडियंस पारी : रोहित का वार्नर बे संदीप ४, डिकॉक बो संदीप २५, सूर्यकुमार का साहा बो नदीम ३६,किशन बो संदीप ३३, पड्या का विलियमसन बो नदीम ०,तिवारी क साहा बो राशिद।.पोलार्ड क विलियमसन बो नदीम ४१, कुल्टर नाइल का गर्ग बो होल्डर १, पेटिसन नाबाद ४, कुलकर्णी नाबाद ३, अतिरिक्त : एक रन, कुल योग 20 ओवर में आठ विकेट पर १४९ रन, विकेट पतन :1-12, 2-39, 3-81, 4-81, 5-82, 6-15, 7-116, 8-145, गेंदबाजी संदीप ४-०-३४-३, होल्डर ४-०-२५-२, नदीम ४-०-१९- २, नटराजन ४-०-३८-

शानदार फार्म में चल रहे सूर्यकुमा यादव ने 29 गेंद में पांच चौकों की मदद से 36 रन जोड़े जबकि ईशान किशन ने 30 गेंद में 33 रन बनाए जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल थे। उन्हें संदीप ने बोल्ड किया और यादव शाहबाज नदीम की गेंद पर आगे निकलकर खेलने के प्रयास में चके लेकिन रिधिमान साहा ने स्टिम्पिंग करने में कोई चुक नहीं की। मुंबई ने इस मैच में हार्दिक पंड्या , जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को आराम दिया है। कृणाल पंड्या खाता खोले बिना नदीम की गेंद पर केन विलियमसन

महिला टी20 चैलेंज : अजेय सुपरनोवाज की निगाह लगातार तीसरे खिताब पर

भाषा । शारजाह

भारतीय महिला क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ खिलाडियों के अलावा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की खिलाडी बुधवार से यहां शुरू होने वाले तीसरे महिला टी20 चैलेंज में एक दूसरे के खिलाफ अपना कौशल और दमखम दिखाएंगे। इस टुर्नामेंट में चार मैच होंगे जिसमें तीन टीमें मौजूदा चैंपियन सुपरनोवाज, पिछले साल का उप विजेता वेलोसिटी और ट्रेलब्लेजर्स भाग लेंगी। ये तीनों टीमें एक दूसरे से भिडेंगी जिसके बाद नौ नवंबर को फाइनल होगा। टुर्नामेंट में श्रीलंका, बांग्लादेश और न्यूजीलेंड की खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली टीम सुपरनोवाज ने अब तक पिछले दोनों टूर्नामेंट में अपने सभी मैच जीते हैं। वह अपने अभियान की शुरुआत मिताली राज की अगुवाई वाले वेलोसिटी टीम के खिलाफ करेगी और उसकी निगाह लगातार तीसरा खिताब जीतने पर टिकी रहेगी। हरमनप्रीत पिछले टर्नामेंट में शानदार फार्म में थी। उन्होंने तीन मैचों में से दो में अर्धशतक जमाए। भारत की टी20 कप्तान अपनी शानदार फार्म में वापसी करने की कोशिश करेंगी।

वार्डी के शानदार खेल से लीसेस्टर ने

लीड्स को हराया

लीइस। स्टाइकर जेमी वार्डी ने पहले दो गोल करने में मदद की और फिर स्वयं एक गोल दागा जिससे लीसेस्टर ने लीड्स को 4-1 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में विरोधी टीम के घरेलू मैदान पर लगातार चौथी जीत दर्ज की और अंकतालिका में दसरे स्थान पर जगह बनाई। पिछले संत्र में लीग में सर्वाधिक गोल करने के कारण गोल्डन बूट हासिल करने वाले 33 वर्षीय वार्डी पर उम्र का कोई असर नहीं दिख रहा है और इस सत्र में अब तक सात गोल कर चुके हैं। वार्डी की मदद से हार्वे बर्न्स ने खेल



के 121वें सेकेंड में ही गोल कर दिया। यह लीसेस्टर की तरफ से अगस्त 201 के बाद सबसे कम समय में किया गया गोल है। उन्होंने 21वें मिनट में यूर्र टीलेमान्स को गोल करने में सहायता की। एस्टन विला पर 3-0 की जीत से उत्साहित लीड्स ने स्ट्अर्ट डलास के 48वें मिनट में किए गए गोल से लीसेस्टर की बढ़त कम की लेकिन वार्डी ने 76वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को फिर से मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

Public Notice My client Janki Devi wife of Sh. Kishor Kumar Singh Resident of G-145 A, G Block, Vishwas Park, Uttam Nagar New Delhi-59 has disowned/deharred her elder son Salender Pratap Singh from her movable, immovable properties due to disrespectful, out of control behaviours and she has severed her relation with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody deals with them will do so at his / her/their own risk and responsibility. (Anshul Kumar Aggarwal) Advocate, S-44, 45 Param puri, Uttam Nagar, New Delhi-59

PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the general public that Mr. Tarvinder Singh is owner of Entire First Floor, without roof rights of Property No. 62 & 63, in Gali No. 08, measuring 60 Sq. yrds, i.e. 51 Sq. mtrs, out of Khasra No.185, situated at Durga Park, New Delhi, by virtue of Sale Deed dated 20.08 2020, Registration No. 4227, executed by Mr. Pushkar Singh & Mrs. Rama Rathaur who has lost / misplaced previous Original Sale Deed dated 29.08 2011, Registration No. 10307 in favour of Mr. Rati Ram. All persons are hereby informed not to deal or carry registration red. 1003/1/th twofur of the "Red Ream All persons are hereby informed not to deal or carr out any transaction with anyone on the basis or missing document. If anyone has already carrier out or being carried out kindly inform the under signed in writing on the below mentioned addres-within 07 days of the present.

籣 आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

दिनांक- 29 10 2020

सं. MCF/RBL/AA01/2020 प्राधनिक रेल डिब्बा कारखाना. रायबरेली में अप्रेंटिस एक्ट—1961 के अंतर्गत 110 एक्ट प्रशिक्षअ का Engagement फिटर, वेल्डर एवं इलेक्टीशियन टेडों में किया जाना है। इस Engagemen संबन्धित विस्तृत विवरण (अधिसूचना) आरेडिका, रायबरेली कि वेबसाइट www.mcf.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। सभी योग्य एवं इच्छक उम्मीदवार अधिसचना के आधार पर संबन्धित टेंड में दिनांक 02.11.2020 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।"

उप. मुख्य कार्मिक अधिकारी

वाटसन ने संन्यास लिया

करियर के प्रत्एक पल का भरपुर आनंद लिया और उन्होंने जो सपना देखा था



आस्ट्रेलिया के चोटी के आलराउंडर शेन वाटसन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बाहर होने के बाद मंगलवार को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वाटसन ने कहा कि उन्होंने अपने 20 साल के

उसे साकार करने के लिए वह स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। यह 39 वर्षीय खिलाड़ी 2016 में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुका था और उन्होंने पिछले साल आस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग को अलविदा कह दिया था। वाटसन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, इसकी शुरुआत बचपन में तब हुई थी जब मैंने एक टेस्ट मैच देखते हुए अपनी मां से कहा था कि मैं आस्ट्रेलिया की तरफ से खेलना चाहता हं। अब जबिक मैं आधिकारिक तौर पर सभी तरह की क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर रहा हूं तब मैं खुद को भाग्यशाली मान रहा हूं कि मैंने अपना सपना पूरा किया। इस अध्याय का समापन करना मुश्किल बनता जा रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं वास्तव में आभारी हूं कि मैंने यह अदभत सपना जिया। अब अगली रोमोंचक यात्रा की तैयारी है। वाटसन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। टी20 प्रारूप में उनकी काफी मांग थी और वह आईपीएल में शुरू से नियमित रूप से खेलते रहे। आईपीएल में उन्होंने 145 मैचों में 3874 रन बनाए जिसमें चार शतक और 21 अर्धशतक शतक शामिल हैं। उन्होंने इसके अलावा 92 विकेट भी लिए। वास्तव में लगता है कि यह सही समय है। मैं जानता हूं कि मैंने क्रिकेट में अपना आखिरी मैच, अपने प्रिय चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आखिरी मैच खेल लिया है। अपने लंबे करियर में इतनी चोटों के बावजद 39 वर्ष की उम्र में अलविदा कहने पर में वास्तव में खद को भाग्यशाली मानता हं। उन्होंने अपने करियर में अहम भिमका निभाने वाले लोगों विशेषकर अपनी मां, पिताजी, बहन निकोल और अपनी पत्नी का आभार व्यक्त किया।

देश का निर्यात अक्टूबर में 5.4 प्रतिशत गिरा

रोहित को पता है करियर लंबा : गांगुली



🕨 आईपीएल ही नही खेलना भाषा। नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली चाहते हैं कि चोटिल सीनियर सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा प्ले आफ में अपनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम मुंबई इंडियन्स की ओर खेलने का फैसला लेने के दौरान सतर्कता बरतें क्योंकि उनकी पैर की मांसपेशियों की चोट के बढ़ने का खतरा है जिसके कारण उन्हें आस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में भी जगह नहीं दी गई। रोहित किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ दसरे चरण के मैच के बाद से बाएं पैर की मांसपेशियों में चोट के कारण नहीं खेल पाए हैं और इस पर जाने वाली भारतीय टीम में भी जगह नहीं मिली है। बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड रोहित जैसे खिलाड़ी की मैदान पर वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेगा क्योंकि यह उनका काम है।

सार्वजनिक सूचना

श्री यश कुमार निगम पुत्र श्री बीठकेठ निगम निवासी बी-1201, स्काईटेक मैट्रोट अपार्टमेन्ट, सेक्टर-76, बी-1201, स्काइटक महोट अपारमन्ट, सक्टर-76, गोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर (उठप्र०) एवं सुश्री सपना राय पुत्री श्री राहर सिंह राय निवासी गोदक बस्ती, पतेन गोवक खासमाइल जलधका, वाजितिंग पश्चिम बंगाल – 734503, ने विशेष विवाह श्विनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह करने हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में आपत्तिकारी व्यक्ति अपनी अपार्थन (अपार्थन) के कार्यालय में

Ram Lagan aged about 51 years, r/o 2151/15 B, New Patel Nagar, New Delhi has severed his relationship with his son Sh. Ghanshyam and his wife Ms. Shivani and also disowned him and his family from all his immoveable and moveable assets. Anybody dealing with them will do so at his/their own costs risks and consequences. JAGADISH SETHI, Advocate, Delhi High Court

L-1, Kanchan House, Karampura Comm. Complex, New Delhi-110015

ADDI INDUSTRIES LTD. CIN:- L51109DL1980PLC256335 E-MAIL: atul.addi@gmail.com

NOTICE

Pursuant to Regu 29 read with Regula Pursuant to Regulation 29 read with Regula-tion 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Tuesday, the 10th day of November, 2020 at 1.30 P.M. at 23, EASTERNAVENUE, MAHARANI BAGH NEW

C. L. Jai

कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड

(सीआईएनः एल७०१०९डीएल१९८०पीएलसी१६९३१८) पंजी. कार्यालयः प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 ई-मेलः camaccommercial@gmail.com.

फोनः 7303495374, वेबसाइटः www.camaccommercial.com

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए विनियमावली. 2015 के विनियम 29 के साथ पठिव विनियम 47 के अनुसरण में, एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य के साथ, 30 सितम्बर 2020 को समाप्त दूसरी तिमाही और छह माह की अवधि हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे। सूचना कम्पनी की www.camaccommercial.com पर र्म उपलब्ध है तथा कलकत्ता स लिमिटेड को मेजी जा चुकी है।

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड हस्ता./ सुरिम श्रीवास्तव कम्पनी सेक्रेटर थान : नई दिल्ली

ZEL JEWELLERS LTD REGD. OFFICE: E-5, South Extension Part-II, New Delhi-110 049

NOTICE

ated: 3rd November, 2020

Place:New Delhi

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, it is hereby informed that meeting of Board of Directors of the ompany is Scheduled to be held on Friday 13th November, 2020 at 5.00 P.M. at the egistered office of the Company E-5, South Extension, Part-II, New Delhi-110 049, to consider and approve, inter alia, the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Second Quarter & Hall ear ended 30th September, 2020. The said notice may be accessed on the

of the Stock Exchange website www.msei.ir N:-L74899DL1994PLC058832 MAIL:-zeljewellers@yahoo.co.ir dline:-(91)-011-26252416

> FOR ZEL JEWELLERS LTD Priyanka Pathal Company Secretary 891284940

PUBLIC NOTICE

Information is given to general public at large that my client Mr. Rameshwar Yadav owner of Plot No. C-44-A, area measuring 43 Sq. Yds. Out Orthasar No. 18/12 situated at Karawal Nagar, in the abadi of Main 30 Ft. Road, Lok Vihar, Shiv Vihar, Iliaqa Shahdara, Delhi. By virtue of Notarized General Power of Attorney, Agreement to sell & wild dated 15.05.7989 and same property to be loan financed by Mfs Vastu Housing Finance Corporation Ltd. A-32, 2nd Floor, Industrial Area, Phase-1, Naraina New Delhi-110028.1f any person(s) have any objection(s) or Claim(s) with respect for the right, title or interest in the said property then contact us within 7 days from the date of this notice on the number mentioned herein below failing which my client i.e. M/s Vastu Housing Finance Corporation Ltd. A-32, 2nd Floor, Industrial Area, Phase -1, Naraina New Delhi-110028 shall not be held responsible in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that M/s MVRV Ventures 'Seller'claims to be owner and in possession of 1st Floor & 2nd Floor with Root of Prop. no. 12/866 at Friends Sehkari Awas Samilli Ltd Sec 12, Vasundhara, Chz. LJ P I hereinalter called the said property by witrue of Sale Deed Dated 10,12/2019 Executed by Manisha Goyal As and Manisha Goyal have inherited the said property on the basis of Regd. will Dated 11.0/2/2014 Executed by Asharkee Devi & M/s MVRV Ventures has signeed to sell the 2nd Floor with Root lo Vinay Chola & Pragali Pandey & 1st floor to Shelly Rana and Sald Property severally in avour of our clients, Axis Bank, London, I having its office at Himalya House. Cannught Place New Delhi . All persons's institution's having any claim against or in respect of the said Property or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/registered or otherwise), gift, trust, inheritance, lien or otherwise however, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such persons or persons will be considered to have been waved and/or abandoned and our client shall proceed with the disbursement of loan against the said property and subsequent creation of mortgage in respect thereof.

subsequent creation of mortgage in respect thereof, Vishal Diwan & Company LLP Advocate & Solictor H.No.2 (LGF), NRI Complex N. D.—19 M-981839999

🚯 रूंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड पंजीकत कार्यालयः 101. प्रगति टावर 26 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 फोन: 011-40453332

वेबसाइटः www.rungtairrigation.in

सेबी (सुचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29(1)(क) के साथ पठित विनियम 47(1)(क) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती हैं कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को अप. 01.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 101 प्रगति टावर 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणा विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेघ) वेनियमावली, 2015 के विनियम 9 के अनुसार अंतरंगी व्यापार की रोकथाम हेत कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार, कम्पनी की प्रतिभृतियाँ संव्यवहार के लिए ट्रेडिंग विन्हों, जो 01 अक्टूबर 2020 को बंद की जा चुकी है, उपरोक्त परिणामं की घोषणा की तिथि के बाद 48 घंटे की अवधि समाप्त होने तक बंद रहेगी। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rungtairrigation.in पर भी

बोर्ड विषय सूची के अनुसार अन्य आवश्यक प्रस्ताव पर भी विचार और अनुमोदन कर सकता है। वास्ते कंगटा इर्रिगेशन लिमिटेव

धान : नई दिल्ली (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

हस्ता./-

पब्लिक नोटिस आपकी जानकारी हेतु, 1380 वर्गमीटर

तीन साइड ओपन प्रोपर्टी नंबर 1696 नोथियन रोड, कश्मीरीगेट दिल्ली-110006, को 690 वर्गमीटर के दो पंजीकृत विक्री कर्मो द्वारा दिनांक 7-06-2001 को, श्री विरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री प्रीत सिंह जो स्वर्गीय सीता राम/ श्री भाग मल के दोनो पुत्र श्री महावीर सिंह और अशोक कुमार के पंजीकृत जनरल अटोर्नी होल्डर हैं, द्वारा धरमवीर, पुत्र श्री चरण दास, पंजीकृत दस्तावेज संख्या 2273, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या ३३८, पृष्ठ १२३ से १२८ के माध्यम से और श्री दलेल सिंह, पुत्र श्री जवाहर सिंह पंजीकृत दस्तावेज संख्या 2274 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 338 पुष्ठ 129 से 134, के माध्यम से बेचा गया था। इस सामान्य सार्वजनिक नोटिस के विषय में यदि किसी को कोई आपत्ति है तो उसे लिरिवत रूप में 30 दिनों के भीतर अधो हस्ताक्षरी को बताई जानी चाहिए।

यह नोटिस मेरे मुवक्किल श्री संजय जग्गी- एफ-१२८, मानसरोवर गार्डन दिल्ली-110015, मॉ.-9868900547 की ओर से है।

अरुण कुमार (एडवोकेट) बी २/१४० पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 मॉ

गुमशुदा की तलाश



सबीना बेगम

16.09.2020 से पुलिस स्टेशन संगम विहार, नई दिल्ली क्षेत्र से लापता है। इस बाबत DD No. 45A, दिनांक 17.09.2020, थानाः संगम विहार, नई दिल्ली में दर्ज है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लापता महिला के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाया है। अगर किसी को भी इस लापता महिला

के बारे में जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित पर सूचित करें।

फोनः 011-23014046 (Direct), 011-23015229 & 23015218 ext. 210

वेबसाईटः http://cbi.nic.in थाना प्रमुख ई—मेल: cic@cbi.gov.in

पुलिस स्टेशन, संगम विहार, नई दिल्ली फैक्स: 011-23011334 फोनः 011-26044546

अपहृत/गुमशुदा की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल कुमार, पुत्र श्री राम सिंह, पता म.नं. 303, गली नं 10, छतरपुर पहाड़ी, 60 फुटा रोड, नई दिल्ली, जो दिनांक 22.10.2020 से लापता / अपहरण हुआ है। इस संदर्भ में डीडी सं. 23ए दिनांक 22.10.

अनिल कुमार

DP/302/SD/2020

2020 थाना महरौली, नई दिल्ली गुमशुदा / अपहृत व्यक्ति का ब्यौरा इस प्रकार है : नाम : अनिल कुमार, पिता का नाम : श्री राम सिंह, उम्र : 50 साल, कद : 5

फीट 10 इंच, रंग : गेहुंआ, चेहरा : गोल, शरीर : मजबूत, पहनावा : जिसने पीली टी-शर्ट और बदाम रंग की पैन्ट पहन रखी है। अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी / सूचना मिले तो कृपया

निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें। वेबसाइट : http://cbi.nic.in ई—मेल : ciccbi@cbi.nic.in फैक्स : 011-230111334 फोन: 011-23014046, 30115229, 23015218, एक्स.: 210

थानाध्यक्ष थानाः महरौली

नई दिल्ली फोनः 011-26643200 8750870824

AXIS BANK खुदरा आरित केन्द्र, दिल्ली : लोजर ग्रावण्ड फ्लोर तथा अपर ग्रावण्ड फ्लोर, हिमालय हावल के की मार्ग किन्स बैंक लि., ऐविसस हाउस, टावर टी-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128 नोएडा एक्सप्रेवे, जेपी ग्रीन्स विशटाचन, नोएडा (उ.प्र.)—201301, खुदरा आस्ति केन्द्र, गाजियाबाद बीएक-१९, 2, 3, प्रथम तल, आदित्य सिटी सेंटर, नीति खंड-1, इंदिरायुरम, गाजियाबाद-201012, खुदर आस्ति केन्द्र, फरीदाबाद: ऐक्सिस बैंक लि., एससीओ-8, हुडा शॉपिंग सेंटर, सेक्टर-16, फरीदाबाद हरियाणा-121002, खुदरा आस्ति केन्द्र, गुरूग्रम: ऐक्सिस बैंक लि., एएससी गुरूग्रम , एसजी-107 डीएलएफ गेलेरिया कॉम्प्लेक्स, निकट डांक घर, डीएलएफ सिटी फेंज-4, गुरूप्राम-12200, कार्पारेट कार्यालय : ऐक्सिस हाउस, स्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली मुंबई-400025, पंजीकृत कार्यालय : "त्रिशूल", तृतीय तल, समधेंश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज

कब्जा सूचना अघोहस्ताक्षरी ने, ऐक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकर और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अपीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ती 2002 के नियम 9 के साथ पठित घारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रो)/ सह-कर्जदार(रो)/ गारंटर(रो)/ बंधकदाता(जो) से सूचना मे

वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की

एतद्ञ्वाराकर्जदार(रॉ)/सह-कर्जदार(रॉ)/गारंटर(रॉ)/बंधकदाताओं) तथा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियगावली के नियग 8 के साथ पठित उक्त अधिनियग की घारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा निम्नवर्णित तिथियों कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) को विशेष रूप से तथा जन साधारण व

क्रणवास्तार प्रध-क्रणवास्तार प्रधान प्रदेश हैं । स्वयं क्षेत्र के प्रधान क्षेत्र के स्वयं को कि उस प्रधान क्षेत्र एवदहारा साव्यान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति संबंध में कोई भी संव्यवहार ऐक्सिस बैंक की बकाया राशि का पूर्ण मुगतान करने के बाद ही किया ज

राज्या है। कर्जदार/साह-कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता का घ्यान, प्रत्यामूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध सम के संबंध में, अधिनियम की घारा 13 की उप−घारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का वर्णन
1. श्री अंकुर माटी पुत्र श्री धर्म सिंह, एवी 4/302 अशोक वाटिका 4, जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा, गाँत मुद्र नुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306 अन्य पता : श्री अंकुर माटी पुत्र श्री धर्म सिंह, 5वां तत्व, कैसन्स अल्फा रक्वॉयर, अल्फा कमशियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308 2. श्रीमती रुचि माटी पत्नी श्री अंकुर माटी, एवी 4/302, अशोक वाटिका 4, जेपी ग्रीन्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306	मौजा मोहकमपुर खुर्द, परगना परवा दून, जिला देहरादून में भूमि खसरा सं. 152 पर निर्मित मंत्रा, देहरादून में स्थित मूतल पर पलेट सं. 103 जिसक सुपर बिल्ट अप एरिया 1350 वर्ग फुट अथवा 1246 वर्ग मीटर है, वौहद्दं पूर्व – सेट बैक, परिवा – लिएट एवं लॉग उत्तर – पलैट सं. 104, दिशण – सेट बैक

एतदद्वारा उपरि-वर्णित कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) को राशि का भुगतान 30 दिन के मीतर करने की सूचना दी जाती है, अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अविध समाप्त होने पर, बंधक सम्पत्ति की बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

तिथि : 04-11-2020

मांग सूचना की तिथि

3. मांग सूचना

में बकाया राशि

1. 17-सित.-2018

2. 29-अक्टूबर-20

आकस्मिक व्यय

और लागत

+ ब्याज.

कच्चातेल कीमतों में तेजी, डॉलर की लिवाली से रुपया 74.41 रुपए प्रति डॉलर पर अपरिवर्तित मंबई। कच्चातेल कीमतों में तेजी

तथा बैंकों की डॉलर लिवाली से विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को रुपए की विनिमय दर 74.41 रुपए प्रति डॉलर पर लगभग अपरिवर्तित बंद हुई। स्थानीय शेयर बाजार में भारी लिवाली के बीच अंतरबैंक विदेशी-मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 74.34 पर काफी मजबूत खुला और कारोबार के दौरान 74.25 तक मजबूत हो गया सत्र के उत्तरार्द्ध में उतार-चढ़ाव के बीच स्थानीय मुद्रा की तेजी लुप्त हो गई। रुपया अंत में अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले महज एक पैसे की तेजी के साथ 74.41 प्रति डॉलर पर

सोने में 55 , चांदी में 170 रूपए दी तेजी नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के रख के अनुस्प दिल्ली सांप्र बाजार में

मंगलवार को सोना ५५ स्प्रप्ट की तेजी के साथ ५१,७३५ स्प्रप्ट प्रति १० ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीन ने यह नानकरी दी है। इससे पिछले करोबारी सत्र में सोना 50.680 रूपए पति १० ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी १७० रूपए की तेजी के साथ ६१,७८० रपए प्रति किलोग्राम हो गई जो इससे पहले के करोबारी सत्र में ६१,६१० रपए पति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

प्रतिशत और इंजीनियरिंग सामान के 5.98 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-पेटोलियम उत्पादों, रत्न एवं आभूषणों, अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल निर्यात में 3.84 प्रतिशत की गिरावट अक्टबर अवधि में यह 49.5 प्रतिशत अक्टूबर के 26.23 अरब डॉलर के रही। कुछ वस्तुओं में निर्यात की गिरकर 37.84 अरब डॉलर रहा निर्यात से 5.4 प्रतिशत कम है। स्थिति सुधरी भी है। इनमें चावल, लगातार छह महीने की गिरावट के बाद अक्टूबर में देश शुद्ध तौर पर आयातक समीक्षाविध में विभिन्न वस्तुओं के ऑयल मील, लौह अयस्क, तिलहन, देश का निर्यात सितंबर में 5.99 रहा। देश का व्यापार घाटा 8.78 अरब निर्यात में गिरावट रही। पेट्रोलियम कालीन, दवा, मसाले, कपास और प्रतिशत बढ़कर 27.58 अरब डॉलर डॉलर रहा। जबिक पिछले साल इसी निर्यात में यह 53.30 प्रतिशत, काजू में रसायन शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष की था। भारतीय निर्यातकों के संघ माह में यह 11.76 अरब डॉलर था। 21.57 प्रतिशत, रत्न और आभुषण में अप्रैल-अक्टबर अवधि में देश का फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इस दौरान देश का आयात भी 11.56 21.27 प्रतिशत, चमडा में 16.69 निर्यात सालाना आधार पर 19.05 ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष

लिवाली से सेंसेक्स 504 अंक उछला

शामिल शेयरों में 6.51 प्रतिशत वृद्धि

के साथ आईसीआईसीआई बैंक सबसे

आगे रहा। इसके अलावा स्टेट बैंक.

एचडीएफसी, पावर ग्रिड, सन फार्मा,

प्रतिशत गिरकर 33.6 अरब डॉलर प्रतिशत, मानव निर्मित धागोकपड़े में प्रतिशत घटकर 150.07 अरब डॉलर शरद कुमार र्साफ ने कहा कि अक्टूबर रहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 12.82 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक सामान में जबिक आयात 36.28 प्रतिशत गिरकर में निर्यात में मामूली गिरावट की वजह एक बयान में कहा, देश से वस्तुओं 9.40 प्रतिशत, कॉफी में 9.25 182.29 अरब डॉलर रहा। अक्टूबर में कंटेनरों की कम उपलब्धता और का निर्यात अक्टूबर 2020 में 24.82 प्रतिशत, समुद्री उत्पादों में 8.09 तेल आयात 38.52 प्रतिशत गिरकर समुद्री मालभाड़े का बढ़ना है।

ानिफ्टी 11,800 अंक से ऊपर निकला

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दिन वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने और घरेल बाजारों में बैंक एवं वित्तीय कंपनियों में लिवाली निकलने रहने से घरेलु बाजार में लिवाली का से शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। जोर रहा। बीएसई का 30 शेयरों पर गिरावट रही। इनके शेयर मृल्य में इसके चलते बंबई शेयर बाजार आधारित सेंसेक्स मंगलवार को 3.75 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की (बीएसई) का सेंसेक्स मंगलवार को लगातार दूसरे दिन चढ़ता हुआ गई। बाजार सूत्रों ने बताया कि 504 अंक उछल गया वहीं नेशनल 503.55 अंक यानी 1.27 प्रतिशत अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी उछलकर 40,261.13 अंक पर पहुंच दिन घरेलू शेयर बाजारों में वैश्विक 11,800 अंक से ऊंप्रर निकल गया। गया। वहीं व्यापक आधार वाला बाजारों के सकारात्मक रुख का बाजार सूत्रों ने कहा कि कंपनियों के एनएसई निफ्टी 144.35 अंक यानी अनुसरण किया। शंघाई, हांग कांग, दूसरी तिमाही के उत्सावर्धक परिणाम 1.24 प्रतिशत बढ़कर 11,813.50 सोल और तोक्यो के बाजारों में भी



आने और विदेशी पूंजी प्रवाह जारी अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में तेजी का रुख रहा।

इंडसइंड बैंक, टाइटन, बजाज आटो, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी लाभ रहा। इसके विपरीत एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, एचसीएल टेक, हिन्दुस्तान युनिलीवर और इन्फोसिस के शेयरों में

आपिति/आपितियाँ अधीहस्ताक्षरी के कार्यालय दिनांक 26.11.2020 तक किसी भी कार्य दिवस प्रस्तुत कर सकता है। नगर मजिस्ट्रेट विशेष विवाह अधिकारी, गौतमबुद्धनगर PUBLIC NOTICE My client Sh. Jagdish Prasad son of Sh.